



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 600]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 29, 2001/अग्राहायण 8, 1923

No. 600]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2001/AGRAHAYANA 8, 1923

महानिदेशक (रक्षोपाय) का कार्यालय

रक्षोपाय शुल्क छूट के पुनरीक्षण का नोटिस

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2001

विषय : अधिसूचित विकासशील देशों से भारत में एसीटोन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के छूट का पुनरीक्षण।

[सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8बी के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली 1997 (इसके बाद इसके एस जी डी नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 18 के अधीन]

सा. का. नि. 872(अ).—रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 6 के अधीन भारत में एसीटोन के आयात से संबंधित रक्षोपाय शुल्क के उद्ग्रहण के लिए जाँच शुरू करने का नोटिस 16-6-99 को जारी किया गया था। एसीटोन के वर्धित आयात से गंभीर क्षति की आशंका से घरेलू उद्योग को बचाने हेतु एसीटोन के आयात पर न्यूनतम आवश्यक समझी गई प्रथम वर्ष के दौरान यथामूल्य 28% और दूसरे वर्ष के लिए दौरान यथामूल्य 21% की दर से एवं शेष छः महीनों के दौरान यथामूल्य 9% की दर से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की संस्तुति करने संबंधी अंतिम निष्कर्ष कथित नियमावली के नियम 11(1) के अधीन दिनांक 7-10-99 को जारी किए गए थे एवं इन्हें भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 4-11-99 को प्रकाशित किया गया था। रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 12 एवं 14 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 8 बी की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं महानिदेशक (रक्षोपाय) के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार ने दिनांक 27-1-2000 की अधिसूचना संख्या 7/2000 सीमा शुल्क के द्वारा कथित सीमा शुल्क टैरिफ की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष संख्या 2914.11 के अधीन एसीटोन पर, जब कभी भी यह भारत में आयात हो, निम्न दरों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया है :—

- (क) यथामूल्य 28% की दर से या रू. 3,000 प्रति मी. टन, जो भी कम हो, यदि आयात 26-01-2001 सहित तथा तब तक हो।
- (ख) यथामूल्य 21% की दर से या रू. 2250 प्रति मी. टन, जो भी कम हो, यदि 27-1-2001 को या इसके बाद आयात हुआ हो मगर 26-1-2002 के पश्चात् नहीं एवं
- (ग) यथामूल्य 9% की दर से या रू. 965 प्रति मी. टन, जो भी कम हो यदि आयात 27-1-2002 को या इसके बाद हो परन्तु 26-7-2002 के पश्चात् नहीं

आगे कथित अधिसूचना द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8बी की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अधीन दक्षिण अफ्रीका के अलावा अधिसूचित विकासशील देशों से एसीटोन के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के उद्ग्रहण से छूट प्रदान की गई।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को यह सूचित किया गया है कि सिंगापुर, जो कि दिनांक 14-12-98 की अधिसूचना संख्या 103/98 के अनुसार एक अधिसूचित विकासशील देश है, से भारत में एसीटोन का आयात अप्रैल, 2001 से सितम्बर, 2001 के शुरू तक 1000 मी. 3699 GI/2001

टन था जो कि इस अवधि के दौरान हुए एसीटोन के कुल आयात का 9.9% बैठता है, हुआ था। यह आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख के अधीन निर्धारित डी-मिनिमस स्तर से अधिक होने के कारण दिनांक 27-1-2000 की कथित अधिसूचना संख्या 7/2000 सीमा शुल्क द्वारा प्रदत्त विस्तारित लाभों को प्राप्त करने हेतु वे पात्र नहीं हैं।

यह अनुरोध किया गया है कि सिंगापुर से होने वाले आयात पर उपलब्ध रक्षोपाय शुल्क से छूट वापिस ली जाए। आगे यह भी अनुरोध किया गया है कि एसीटोन के आयात पर उन्हें उपलब्ध कराए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क से किसी छूट के लिए भारत में एसीटोन निर्यात करने वाले विभिन्न विकासशील देशों से आयात के शेयर पुनर्निर्धारित किए जाए। मामले की जाँच की गई है एवं प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सिंगापुर से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख के अधीन एसीटोन का आयात डी-मिनिमस स्तर से अधिक है और तदनुसार इस नोटिस के माध्यम से पुनरीक्षण कार्रवाई प्रारंभ करने का निश्चय किया गया है। पुनरीक्षण का उद्देश्य यह है कि क्या अधिसूचित विकासशील देशों से एसीटोन के आयात पर वे देश रक्षोपाय शुल्क की अदम्यगी से छूट के पात्र हैं। सभी इच्छुक पक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों सहित अपने ज्ञात दृष्टिकोण महानिदेशक (रक्षोपाय) 5वां तल, डी ब्लाक, इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली-110002, भारत को 31-12-2001 तक प्रस्तुत कर दें।

[फा. सं. एस. जी./आई एन सी/1/99 (पुनरीक्षण)]

आर. के गुप्ता, महानिदेशक

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS) NOTICE OF REVIEW OF SAFEGUARD DUTY EXEMPTION

New Delhi, the 21st November, 2001

Sub : Review of Safeguard duty exemption on imports of Acetone into India from notified developing countries - regarding.

[Under Rule 18 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter referred to as the SGD Rules) read with Section 8B of the Customs Tariff Act 1975]

G.S.R. 872(E).—The notice initiating investigation for levy of safeguard duty concerning imports of Acetone into India was issued on 16.06.99 under Rule 6 of the SGD Rules. Final findings were issued under Rule 11(1) of the said Rules on 07.10.99 and published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II-Section-3-Sub-section (i) on 04.11.99, recommending safeguard duty to be imposed @ 28% advalorem during the 1st year, @ 21% advalorem during the Second year and @ 9% advalorem during the balance six months on imports of Acetone into India being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the serious injury threatened to be caused by the increased imports of Acetone. In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with Rules 12 and 14 of the SGD Rules and based on the final findings of the Director General (Safeguards), the Central Government vide Notification No. 7/2000-Customs dated 27.01.2000 imposed on Acetone, falling under sub-heading number 2914.11 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, when imported into India, a safeguard duty at the rate of;

- (a) 28% advalorem or Rs.3,000 per metric tonne, whichever is lower, if imported upto and inclusive of 26.01.2001;
- (b) 21% advalorem or Rs.2250 per metric tonne, whichever is lower, if imported on or after 27.01.2001 but not later than 26.01.2002; and
- (c) 9% advalorem or Rs.965 per metric tonne, whichever is lower, if imported on or after 27.01.2002 but not later than 26.07.2002.

Further the said notification exempted, inter alia, levy of safeguard duty on imports of Acetone from notified developing countries under Clause (a) of sub-section (6) of Section 8B of Customs Tariff Act 1975, other than South Africa.

It has been informed to the Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi that the imports of Acetone into India from Singapore, a notified developing country as per notification No. 103/98-Customs dated 14.12.98, between April 2001 to early September 2001 were 1000 metric tonne constituting 9.9% of the total imports of Acetone during this period. The imports being in excess of the de-minimis level stipulated under Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 make them ineligible for availing the exemption benefits extended by the aforesaid Notification No. 7/2000-CUSTOMS dated 27th January 2000. It has been requested that the exemption from safeguard duty available to imports originating from Singapore

may be revoked. Further it has also been requested that the share of imports from various developing countries exporting Acetone to India may be re-determined for any exemption from safeguard duty to be made available to them on imports of Acetone.

The matter has been examined and it appears that prima facie the imports of Acetone from Singapore are more than the de-minimis level stipulated under Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 and accordingly it has been decided to initiate review proceedings through this notice. The purpose of the review is to determine whether the notified developing countries are eligible to the exemption from payment of safeguard duty on imports of Acetone.

All the interested parties may make their views known and submit documentary evidence by 31.12.2001 to :

The Director General (Safeguard),

5th Floor, 'D' block,

Indraprastha Bhawan,

New Delhi-110002

India

[F. No. SG/INV/1/99 (REV)]

R. K. GUPTA, Director General

